

जे.आर.एफ./आई. सी. ए. आर. परीक्षा में वी. यू. के दो छात्र टॉप-10 में

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय की अखिल भारतीय जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा में नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के दो छात्रों महु के शिवम् भारद्वाज(7 वाँ स्थान) एवं जबलपुर के ऋषभ चुग(8 वाँ स्थान) ने टॉप-10 में स्थान प्राप्त किया है।

कुल 27 छात्रों का चयन:- इस परीक्षा में वी.यू. के तीनो पशुचिकित्सा महाविद्यालयों एवं मत्स्य महाविद्यालय में से छात्रों का चयन हुआ है। जिनमें जबलपुर के ऋषभ चुग, साधना तिवारी, अनामिका वारखड़े, सौरभ साहू, रागनी मिश्रा, श्रेया दुबे, देवांगना चतुर्वेदी, कमलेश कुमार साहू, अभिलाषा साहू, पलक त्रिपाठी, रीना धाकड़ तथा रीवा के हरेन्द्र राजपूत, निष्ठा कुशवाहा, प्रभात देडोटिया, सुनील गोयल, विपिन चन्द्र आदर्श, अंजनी मरावी एवं निशांत शुक्ला, इसके अलावा मत्स्य संकाय में निधी कटरे, प्रियंका गौतम, अंकिता विश्वकर्मा, शिवानी पाठक, रामनिवास साकेत एवं अकांक्षा सौंधिया शामिल है।

वायोटेक्नालॉजी विषय में भी दो छात्र चयनित:- इसके अतिरिक्त वायोटेक्नालॉजी विषय की अखिल भारतीय परीक्षा में महु महाविद्यालय के दो छात्रों अमर सिंह प्रजापति(21 वाँ स्थान) एवं अमितेश दुबे(22 वाँ स्थान) ने सफलता प्राप्त की है।

वि. वि. करेगा सम्मान:- विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. प्रयागदत्त जुयाल ने सफल छात्रों के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये उन्हें बधाई दी है। उन्होनें कहा कि नवंबर में आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में इनका अभिनंदन किया जायेगा। आने वाले समय में आई. सी. ए. आर. एग्जामिनेशन के लिये शिक्षक तैयारी भी करवायेंगे, जिससे इसका रिजल्ट और अच्छा बनेगा।

डॉ.ओ.पी.श्रीवास्तव
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर